

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 1969/फाल्गुन 6, 1890

No. 73]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 1969/PHALGUNA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February 1969

S.O. 829.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Jayanti Shipping Company (Taking over of Management) Act, 1966 (24 of 1966), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Datta, Secretary, Ministry of Shipping and Transport to be the Chairman of the Board of Control with immediate effect *vice* Shri S. Chakravarti, resigned, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Aviation, Department of Transport, Shipping and Tourism (Transport Wing), No. S.O. 1781, dated the 10th June, 1966, namely:

In the said notification,—

(a) for the entry against Serial No. 1, the following entry shall be substituted, namely:—

“Shri S. K. Datta, Secretary, Ministry of Shipping and Transport.”

(b) Serial No. 3 and the entry relating thereto shall be omitted.

[No. 32-MD(2)/69.]

R. DORAISWAMY, Jt. Secy.

